



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 1-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक प्रथम जनवरी, 2020 (11 पौष, 1941 शक)

### विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
<b>भाग I</b>	<b>अधिनियम</b>	
1.	हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 38)।	1
2.	मोटर यान (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 39)। (केवल हिन्दी में)	3
<b>भाग II</b>	<b>अध्यादेश</b>	
	कुछ नहीं।	
<b>भाग III</b>	<b>प्रत्यायोजित विधान</b>	
1.	अधिसूचना संख्या का०आ० 1/ह०अ० 11/1994/धा० 45क/2020, दिनांक प्रथम जनवरी, 2020 — अधिसूचना संख्या Admn./368/ISIT/5627, दिनांक 6 सितम्बर, 2017 द्वारा अधिसूचित संचार तथा संयोजन अवसंरचना नीति को अंगीकृत करने बारे।	1-2
2.	अधिसूचना संख्या का०आ० 2/ह०अ० 11/1994/धा० 209/2020, दिनांक प्रथम जनवरी, 2020 —हरियाणा पंचायती राज (संचार टावर विनियमन) संशोधन नियम, 2019. (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	3-4
<b>भाग IV</b>	<b>शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन</b>	
	कुछ नहीं।	

**भाग-I****हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक प्रथम जनवरी, 2020

**संख्या लैज.40/2019.**— दि हरियाणा सर्विस आफ इंजीनियरज, ग्रुप ए, पब्लिक वर्क्स (बिल्डिंगज ऐन्ड रोडज) डिपार्टमेंट (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :-

**2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 38****हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अधिनियम, 2019**

हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग अधिनियम, 2010,

को आगे संशोधित करने के लिए

**अधिनियम**

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग अधिनियम, 2010 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 1 की उप-धारा (2) तथा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-  
 (2) यह 4 नवम्बर, 2010 से लागू हुआ समझा जाएगा।  
 (3) यह उन व्यक्तियों को लागू होगा, जो सेवा के सदस्य हैं तथा 4 नवम्बर, 2010 को या उसके बाद नियुक्त किए गए हैं।"। 2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 1 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के द्वितीय तथा तृतीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :-  
 "परन्तु यह और कि प्रमुख अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के लिए सामान्य संवर्ग होगा :  
 परन्तु यह और कि इलैक्ट्रीकल संवर्ग के लिए मुख्य अभियन्ता (इलैक्ट्रीकल) तथा मैकेनिकल संवर्ग के लिए मुख्य अभियन्ता (मैकेनिकल) का अलग पद होगा तथा धारा 8 के अधीन गठित कमेटी द्वारा उन्हें ज्येष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरा जाएगा। ज्येष्ठता उनके अपने-अपने संवर्ग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर सेवाकाल द्वारा अवधारित की जाएगी।"। 2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 9 का संशोधन।
4. मूल अधिनियम की धारा 25 के परन्तुक के खण्ड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-  
 "(च) इस अधिनियम की अधिसूचना से पूर्व, भवन तथा सड़कें शाखा, जिसे अब लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग कहा गया है, में पदोन्नत, भर्ती या नियुक्त किए गए अधिकारी, हरियाणा अभियन्ता सेवा, श्रेणी I, लोक निर्माण विभाग क्रमशः (भवन तथा सड़कें शाखा), (जन स्वास्थ्य शाखा) तथा (सिंचाई शाखा) अधिनियम, 1995 (1995 का 20) द्वारा शासित तथा विनियमित किए जाते रहेंगे।"। 2010 का हरियाणा अधिनियम 30 की धारा 25 का संशोधन।
5. (1) हरियाणा अभियन्ता सेवा, ग्रुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (2019 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 2), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा व्यावृत्ति।  
 (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

.....

बिमलेश तंवर,  
सचिव, हरियाणा सरकार,  
विधि तथा विधायी विभाग।